

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 134]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 अप्रैल 2024-वैशाख 10, शक 1946

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2024

क्र.AGR-13-1-0003-2024-Sec-2-चौदह(C.N.308941).- भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015-02-2015-क्रेडिट-II, दिनांक 26 अप्रैल 2021 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2024 एवं रबी 2024-25 के लिए जिलों के समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये प्रति हेक्टेयर बीमित राशि अधिसूचित की जाती है. संलग्न सूची अनुसार फसलों के समक्ष दर्शित राशि को प्रति हेक्टेयर बीमित राशि घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भास्कर लक्षकार, अपर सचिव.

खरीफ 2024 बीमित रेशे प्रति हेक्टेयर (रूपये में)

क्र.	जिला	धान सिंचित	धान असिंचित	गोयाबीन	मक्का	बाजरा	ज्वार	कोदो-कुटकी	मूंगफली	तिल	कपास	मूंग	उदद
1	अनूपपुर	35000	28000	33000	17500		33000	9500	24000	16800		21000	21000
2	अलीराजपुर	30000	22000	36000	26000	15000	30800	22000	19500		50000	22800	25000
3	अशोकनगर	33000	22000	37500	27500			34020	34230	15400		24500	23100
4	आगरमालवा	20000		48000	33000	8800	40000	20600	28500		13200	33000	33000
5	इंदौर			45000	30000			23100					
6	उज्जैन			47000	25000	4000	26000	40000			40000	26800	26800
7	उमरिया	35000	28000	33000	17500		33000	9500	24000	16800		21000	21000
8	कटनी	36000	25000	30000	22000		30900	13000	9400	18700		25900	25000
9	खण्डवा	30000	30000	42250	33000	24000	35000	25000	35000	24000	55000	25000	25000
10	खरगोन			30250	30250	12100	35000	18810	27830		70000	18000	20000
11	गुना	33000	22000	37500	27500			34020	34230	15400		24500	23100
12	ग्वालियर	45980		35090	20000	26620	34000	29040	16000	22990		32000	30250
13	छतरपुर	44000	28000	37700	38000	26000	24500	26000	39000	24000		26000	27000
14	छिंदवाडा	36800	22500	31600	36700	18000	42000	30100	15000	29000	46400	28100	24300
15	पांडुणा	36800	22500	31600	36700	18000	42000	30100	15000	29000	46400	28100	24300
16	जबलपुर	36000	25000	30000	22000		30900	13000	9400	18700		25900	25000
17	झाबुआ	30000	22000	36000	26000	15000	30800	22000	19500		50000	22800	25000
18	टीकमगढ	28100	24000	32100	20000	16000	26000	16000	42000	22000		26000	28000
19	डिण्डोरी	39000	33000	34500	24500		26500		19900	20000		26500	26500
20	दतिया	50200		24850	8360	18400		9188	29370	24500		14000	18000
21	दमोह	35200	24200	29500	20350		28600	22000	24200	18700		26400	26400
22	देवास			45000	24000		17000	22000	17000		41000	17000	17000
23	धार	21000		41000	31000	20500	31000	22000	26000	22000	65000	23000	23000
24	नरसिंहपुर	37000	22000	27000	30000		35000			14000		21000	21000
25	निवाडी	28100	24000	32100	20000	16000	26000	16000	42000	22000		26000	28000
26	नीमच		20000	54000	33000	30000	30000	30000	30000	25000	40000	30000	30000
27	पन्ना	39028	22000	28000	20000		34000	14274	32900	22000		20000	20000
28	बडवानी			30250	30250	12100	35000	18810	27830		70000	18000	20000
29	बालाघाट	46000	38000	26000	22000		26000		14000			24000	24000

क्र.	जिला	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	मक्का	बजरा	अरहर तुअर	ज्वार	कोदी- कुटव	मूंगफली	तिल	कपास	मूंग	उखद
30	बुरहानपुर	30000	30000	42250	33000	24000	35000	25000		35000	24000	55000	25000	25000
31	बैतूल	37000	31000	40000	36000		35000	20000	14300	36500	20000	44000	26000	25000
32	भिण्ड	36000		32800		18000	22000	18800			16000		30000	20000
33	भोपाल	51500	40800	40000	26950		40000	25440	19900		20000		26000	26000
34	मंडला	39000	33000	34500	24500		26500			30000	25000	40000	26500	26500
35	मंदसौर	19400		54000	33000	30000	30000	30000		41000	24000		30000	30000
36	मुरैना	44000	24500	35000	22000	28200	35900	28500		50000	24800	60000	26000	27000
37	रतलाम			52000	40000	8400	60000	19600		35000	19800		40000	30000
38	राजगढ़			37100	26600		35000	23600		28000	10000		23900	23150
39	रायसेन	51000	32600	28900	26000		34000	15700			28500		27100	19900
40	रीवा	40200	27700	33600	30200	25000	34650	29000	49000		28500		34100	29900
41	मऊगंज	40200	27700	33600	30200	25000	34650	29000	49000		28500		34100	29900
42	विदिशा	56700	28600	32000	22100		25800			28800			22000	22000
43	शहडोल	35000	28000	33000	17500		33000	9500	9500	24000	16800		21000	21000
44	शाजापुर	22000		49500	36300	9680	40000	16000		31300		14500	34000	34000
45	शिवपुरी	40000	35650	34475	27700	20300	29100	19900		40000	21340		27900	27900
46	श्यापुर	44000	24500	35000	22000	28200	35900	28500		41000	24000		26000	27000
47	सतना	43708	30565	32200	23000	11110	30691	23000	9600	41868	24530		25507	25292
48	सागर	35000	29700	33000	28000		26900	20900		30500	18200		26500	26500
49	मैहर	35000	29700	33000	28000		26900	20900		30500	18200		26500	26500
50	सिंगरौली	40860	30855	37734	29856	23923	30411	23923	15803	34120	23597	46700	21328	21735
51	सिवनी	43500	32400	29300	35700		39500	22900	12400	44600	23100	21300	30200	27100
52	सीधी	40860	30855	37734	29856	23923	30411	23923	15803	34120	23597	46700	21328	21735
53	सीहार	44000	36700	39300	29225		26400	21000		24200		37000	24200	22000
54	हरदा	45000	31000	36500	33000		34100	26000			23000	20000	29700	28000
55	होशंगाबाद	45000	31000	36500	33000		34100	26000			23000	20000	29700	28000

रबी 2024-25 बीमित राशि प्रति हेक्टेयर (रूपये में)

क्र.	जिला	गेहूँ सिंचित	गेहूँ असिंचित	चना	राईसरसों	अलसी	मसूर
1	अनूपपुर	33000	26000	23500	20400	20000	20000
2	अलीराजपुर	36000	26000	25000			
3	अशोकनगर	39600	25300	34100	23100	15750	23100
4	आगरमालवा	53000	20900	40000	40000	13600	40000
5	इंदौर	45000	24500	40000			
6	उज्जैन	47000		47000	22000		30000
7	उमरिया	33000	26000	23500	20400	20000	20000
8	कटनी	36000	25000	37300	21000	20000	27000
9	खण्डवा	46000	19800	33000			35000
10	खरगोन	35000	26000	35000	25100		
11	गुना	39600	25300	34100	23100	15750	23100
12	ग्वालियर	37290	25000	34000	31460		25410
13	छतरपुर	35000	30000	30000	23000	22000	27000
14	छिंदवाडा	38700	26800	36600	34400	28600	29700
15	पांडुर्णा	38700	26800	36600	34400	28600	29700
16	जबलपुर	36000	25000	37300	21000	20000	27000
17	झाबुआ	36000	26000	25000			
18	टीकमगढ़	36000	26000	32000	27000		26000
19	डिण्डोरी	35000	26800	30000	15500	17350	21600
20	दतिया	28600		34760	23900		22300
21	दमोह	36300	19800	34300	19800	19800	26400
22	देवास	45000	17000	36000	13000	14000	14000
23	धार	48500	23000	37800	30000	21000	22500
24	नरसिंहपुर	37500	22000	33500			26000
25	निवाडी	36000	26000	32000	27000		26000
26	नीमच	54000	24500	38800	27610	25700	30000
27	पन्ना	40000	22440	29000	17600	13640	22400
28	बडवानी	35000	26000	35000	21850		
29	बालाघाट	38000	28000	29000	27500	19000	12000
30	बुरहानपुर	46000	19800	33000			35000
31	बैतूल	41000	25000	32000	30600	23000	27000
32	भिण्ड	34000	25410	24800	28000		18000
33	भोपाल	52390	36900	34300	31500		30400
34	मंडला	35000	26800	30000	15500	17350	21600
35	मंदसौर	54000	24500	38800	32000	25700	30000
36	मुरैना	45000	27000	35500	36000		28500
37	रतलाम	54000	18300	35000	23100	21000	28200
38	राजगढ़	44500		30240	26290		27500
39	रायसेन	36000	22000	35000	27000	17000	32100
40	रीवा	36700	26000	42000	29540	22880	26180

क्र.	जिला	गेह सिंचित	गेह असिंचित	चना	राईसरसों	अलसी	मसूर
41	मऊगंज	36700	26000	42000	29540	22880	26180
42	विदिशा	37000	26300	35045	14800	13200	
43	शहडोल	33000	26000	23500	20400	20000	20000
44	शाजापुर	52800	22990	40000	40000	14960	40000
45	शिवपुरी	40000	27700	38500	26200	23900	26000
46	श्यापुर	45000	27000	35500	36000		28500
47	सतना	44625	35200	38755	37332	35417	31143
48	मैहर	44625	35200	38755	37332	35417	31143
49	सागर	33000	30000	32500	18000	24500	28000
50	सिंगरौली	41785	31037	32908	31244	27237	30000
51	सिवनी	35300	26300	38700	23100	19200	26100
52	सीधी	41785	31037	32908	31244	27237	30000
53	सीहोर	40000	29750	30800		15000	25000
54	हरदा	45000	32000	39600	34000	24000	29700
55	होशंगाबाद	45000	32000	39600	34000	24000	29700